



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 2012/अग्रहायण 10, 1934

No. 269]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 2012/AGRAHAYANA 10, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2012

सं. 3/3/2012-पब्लिक.—भारत सरकार अत्यन्त दुःखपूर्वक यह उद्घोषित करती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल का 30 नवम्बर, 2012 को 3.31 अपराह्न मेदांता अस्पताल, गुडगाँव, हरियाणा में निधन हो गया है।

अशोक मंगोत्रा, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2012

No. 3/3/2012-Public.— The Government of India announce, with profound sorrow, the death of Shri Inder Kumar Gujral, Former Prime Minister of India at 3.31 PM on November 30, 2012 at Medanta Hospital, Gurgaon, Haryana.

A. K. MANGOTRA, Secy.